



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 57] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1977/माघ 19, 1898

No 57] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1977/MAGHA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th February 1977

S.O. 146(E).—Whereas the Jammu and Kashmir National Conference is a recognised political party, with the symbol 'Plough' reserved for it, in the State of Jammu and Kashmir, under notification No. 56/J&K/73, dated 12 April, 1973 in relation to elections to the Legislative Assembly of that State;

And whereas, the said party has made a request to the Election Commission to grant recognition and reservation of symbol for the purposes of elections to the House of the People and the Commission is satisfied that the request is reasonable and proper;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on it by article 324 of the Constitution of India, rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and all other powers enabling it in that behalf, the Election Commission of India hereby directs that—

- Jammu and Kashmir National Conference shall be recognised as a State Party and that the symbol 'Plough' shall be reserved for it; and
- In Table 2 to the Commission's notification in S.O. 61(E), dated 31 January, 1975, the following entries shall be made after the entry relating to Haryana:—

"Jammu & Kashmir	Jammu and Kashmir	Plough"
	National Conference	

- In Table 3 to the Commission's notification against the entry "7. Jammu and Kashmir", for the entries "(8) Spade (9) Two leaves and (10) Plough", the entries "(8) Spade and (9) Two leaves" shall be substituted.

[No. 56/75-XIII]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली; 8 फरवरी, 1977

का० आ० 146 (अ).—तारीख 12 अप्रैल, 1973 की अधिसूचना सं० 56/जे एण्ड के/73 के अधीन, जम्मू कश्मीर राज्य में उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के संबंध में जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस, 'हल' प्रतीक के साथ जो उसके लिए आरक्षित है, एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है;

और, उक्त दल ने निर्वाचन आयोग से यह अनुरोध किया है कि उसे लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाए और प्रतीक आरक्षित किया जाए, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनका यह अनुरोध युक्तियुक्त और उचित है;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और नियम 10 तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निदेश देता है कि—

(क) जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस को एक राज्याय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी और "हल" प्रतीक उसके लिए आरक्षित रहेगा;

(ख) इस आयोग की तारीख 31 जनवरी, 1975 की अधिसूचना सं० का० आ० 61 (ई) की सारणी 2 में हरियाणा में संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्न लिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:—

"जम्मू-कश्मीर	जम्मू-कश्मीर	हल" और
	नेशनल कांफ्रेंस	

(ग) इस आयोग की उक्त अधिसूचना की सारणी 3 में "7 जम्मू कश्मीर" विष्टि के सामने विद्यमान "(8) फावड़ा, (9) दो पत्तियां और (10) हल" प्रविष्टियों के स्थान पर "(8) फावड़ा तथा (9) दो पत्तियां" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[सं० 56/75- XIII]

S.O. 147(E).—Whereas it has been decided by the Election Commission by its order, dated 1 February, 1977 under paragraph 15 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, that the group led by Capt. W. A. Sangma was the All Party Hill Leaders' Conference, a recognised State Party in the State of Meghalaya;

And whereas the Commission has further held that the All Party Hill Leaders' Conference has merged with the Indian National Congress and consequently has ceased to exist as a separate political party,

And whereas the Commission, by its order referred to above, has also ordered that the name of the All Party Hill Leaders' Conference with the reserved symbol "Flower" be deleted from the list of recognised State Parties and that the said symbol shall remain frozen in respect of the States of Assam and Meghalaya;

And whereas it is necessary to give effect to these decisions and also to bring the position upto date under sub-para (2) of paragraph 17 of the said Order;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-para (1) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission makes the following amendment in its notification No 56/75-I, dated 31 January, 1975 published as S.O. 61(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(1), dated 31st January, 1975 and as amended from time to time, namely—

In TABLE 2

under columns 1, 2 and 3 the entries "Meghalaya"....."All Party Hill Leaders' Conference" and "Flower" respectively shall be deleted.

[No. 56/75-XIV]

का० प्र० 147 (घ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के अधीन आने तारीख 1 फरवरी, 1977 के आदेश द्वारा निर्वाचन आयोग ने यह विनिश्चय किया है कि केप्टिन डब्ल्यू.ए. सगमा के नेतृत्व वाला ग्रुप मेघालय राज्य में एक राज्याधीन दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस, या ;

और इस आयोग ने आगे यह भी अवधारित किया है कि आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस का इण्डियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया है और उसके परिणामस्वरूप अलग से एक राजनैतिक दल के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है ;

और इस आयोग ने अपने उपर्युक्त आदेश में यह आदेश भी दिया है कि मान्यता प्राप्त राज्याधीन दलों की सूची में आरक्षित प्रतीक 'फूल' सहित आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस का नाम हटा दिया जाए और उक्त प्रतीक आसाम और मेघालय राज्यों में अनुपलब्ध होगा ;

और इन विनिश्चयों को प्रभावशाली करना और उक्त आदेश के पैरा 17 के उप-पैरा (2) के अधीन इस स्थिति को उद्घाटन दिखाया जाना भी आवश्यक है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड ख के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति भाग 2 खण्ड 3 (ii), तारीख 31 जनवरी, 1975 के आमाधरण अंक में प्रकाशित तथा समय-समय पर संगोहित अपनी अधिसूचना सं० 56/75-1 तारीख 31 जनवरी, 1975 में निम्नलिखित सशोधन करता है, अर्थात्—

सारणी 2 में—

स्तम्भ 1, 2 और 3 में क्रमशः 'मेघालय' 'आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस' तथा . . . 'फूल' प्रविष्टियाँ हटा दी जाएगी ।

[सं० 56/75-XIV]

S.O. 148(E).—Whereas Muslim League (Opposition) in Kerala has applied for recognition as a State Party and allotment to it of a reserved symbol; and

Whereas the Secretary, Kerala Legislative Assembly has informed the Commission that seven members returned to the Assembly on Muslim League ticket in the general election held in 1970, belong to Muslim League (Opposition) party and is recognised in the Assembly as such, and

Whereas after due consideration the Commission is satisfied that the Muslim League (Opposition) should be granted *ad hoc* recognition as a State Party;

Now, therefore in exercise of the powers conferred on the Election Commission of India by article 324 of the Constitution of India, rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 and all other powers enabling it in that behalf, the Election Commission of India hereby directs that—

- (a) Muslim League (Opposition) shall be recognised as a State Party on *ad hoc* basis in the State of Kerala and that the symbol 'Boat' shall be reserved for it; and
- (b) In Table 2 to the Commission's notification No. 56/75-I dated 31 January, 1975 published as S.O. 61(E) in the Gazette of India, Extraordinary part II, section 3(ii), dated 31 January, 1975 against the item "Kerala" the following entries shall be added:—

"4. Muslim League (Opposition) . . . Boat"

AND

- (c) In Table 3 of the said notification against the entry "9 Kerala" the entry "(2) Boat," shall be deleted and the remaining entries 3 to 12 shall be renumbered as 2 to 11 respectively

[No 56/75-XV]

By Order,

V NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० आ० 148 (अ).—केरल में मुस्लिम लीग (विपक्ष) ने एक राज्याय दल के रूप में मान्यता के लिए और उसके लिए एक आरक्षित प्रतीक के आवंटन के लिए आवेदन किया है; और

सचिव, केरल विधान सभा ने इस आयोग का यह सूचित किया है कि 1970 में हुए साधारण निर्वाचन में मुस्लिम लीग के टिकट पर विधान सभा के लिए जो सात सदस्य विजयी हुए थे वे मुस्लिम लीग (विपक्ष) दल के सदस्य हैं और इस दल को उक्त विधान सभा में इसी नाम से मान्यता प्राप्त है; और

इस पर मध्यक रूप से विचार करते के पश्चात् इस आयोग का यह समाधान हो गया है कि मुस्लिम लीग (विपक्ष) को एक राज्याय दल के रूप में तदर्थ रूप से मान्यता दी जानी चाहिए ।

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग, भारत, के सविधान के अनुच्छेद 324, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और नियम 10 तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निदेश देता है कि—

(क) मुस्लिम लीग (विपक्ष) को केरल राज्य में एक राज्याय दल के रूप में तदर्थ आधार पर मान्यता दी जाएगी, और 'नाथ' प्रतीक उसके लिए आरक्षित रहेगा ;

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खण्ड 3 (ii), तारीख 31 जनवरी 1975 में का०आ० 61 (ई०) के रूप में प्रकाशित इस आयोग की तारीख 31 जनवरी, 1975 की अधिसूचना सं० 56/75-I की सारणी 2 में मद 'केरल' के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएगी—

“4-मुस्लिम लीग (विपक्ष)..... नाथ”

और

(ग) उक्त अधिसूचना की सारणी 3 में, मद 'केरल' के सामने की प्रविष्टि “(2) 'नाथ,'” हटा दी जाएगी और शेष 3 से 12 तक की प्रविष्टियों को क्रमशः 2 से 11 तक के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाएगा ।

[सं० 56/75-XV]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977